



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 420]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18, 1982/भाद्र 27, 1904

No. 420]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18, 1982/BHADRA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1982

का० बा० 678(अ) 18कक/आइ०डी०आर०ए०/82—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के प्रादेश संख्या का०बा० 708(घ) 518कक/आई०डी०आर०ए०/81, तारीख 19 सितम्बर, 1981 द्वारा (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त प्रादेश कहा गया है) उड़ीसा स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कटक, उड़ीसा को मैसर्स उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, चौदवार, कटक, उड़ीसा (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध एक वर्ष की अवधि के लिये 18 सितम्बर, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, उड़ीसा स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन कटक, उड़ीसा के प्रबन्ध के अधीन, एक वर्ष की अवधि के लिये 18 सितम्बर, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बना रहे;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 भा 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त प्रादेश एक वर्ष की अवधि के लिये 18 सितम्बर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा।

[का०सं० 3(3)/81-सी०पू०एस०]

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 18th September, 1982

S.O. 678(E)|18AA|IDRA|82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 708(E)|18AA|IDRA|81, dated the 19th September, 1981 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Orissa State Textile Corporation Limited, Cuttack, Orissa, to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Orissa Textile Mills Limited, Chowdwar, Cuttack, Orissa, (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), for a period of one year upto and inclusive of the 18th day of September, 1982;

And, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Orissa State Textile Corporation,

Cuttack, Orissa, for a further period of one year upto and inclusive of the 18th September, 1983;

हूँ, उक्त आदेश की अवधि 18 सितम्बर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फाइल नं. 3(3)/81-सी०यू०ए०स०]

ए०पी० सरवान, संयुक्त सचिव

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 18th day of September, 1983.

[F. No. 3(3)/81-CUS]

का०आ० 679(अ)/18वख/आई०डी०आर०ए०/82-केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18वख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश नं० का०आ० 758(अ)/18वख/आई०डी०आर०ए०/81, तारीख 20 अक्टूबर, 1981 द्वारा यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पत्राचारों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनमें भिन्न जो बैंको और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) जिनका मेसर्स उड़ीसा टेक्सटाइल लिमिटेड, चौधार, जिला कटक, उड़ीसा नामक उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम को लागू हों, प्रवर्तन और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्राप्‍त या उद्भूत सभी बाध्यताएं और दायित्व 18 सितम्बर, 1982 तक की अवधि के लिये जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, निरंकुश रहेंगे;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 18 सितम्बर, 1983 तक की और अवधि के लिये, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी जाए,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18वख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

S.O. 679(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry), (Department of Industrial Development) No. S.O. 758(E)/18FB/IDRA/81, dated the 20th October, 1981 (hereinafter referred to as the said Order) the Central Govt., in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking, known as Messrs Orissa Textile Mills Limited, Chowdwar, District Cuttack, Orissa, is a party or which may be applicable to such industrial undertaking, and all obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for a period upto and inclusive of 18th September, 1982;

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said order should be extended for a further period upto and inclusive of 18th September, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (2) of Section 18FB of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said order upto and inclusive of 18th September, 1983.

[File No. 3(3)/81-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.